

(511)

नगरीय विकास बोर्ड

कागजका प्र. 10(65)-नवीनी, 3/94

लालगढ़ निवास 19 FEB 2010

पुरि पत्र

शहरी क्षेत्रों में रिहाया भूखण्डों के उप विभाजन एवं पुर्णगठन के लिए राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुर्णगठन एवं सुधार) नियम, 1975 लागू है जिनके तहत न्यूट्रिम 100 वर्गगज तथा अधिकतम 1500 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्डों के उप विभाजन एवं पुर्णगठन का अधिकार नगरीय निकायों को प्रदत्त है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.07 के तहत भूल भूखण्ड के 1500 वर्गगज से अधिक हाने पर उप विभाजन अथवा पुर्णगठन के लिए राज्य शरकार की रवीकृति लिया जाना आवश्यक है।

शहरों एवं कस्बों के विकसित क्षेत्रों में जहाँ रथ्यायों की अनुमोदित दंडनाड़ी/निजी भूमि के अनुमोदित उपविभाजन में रिहाया भूखण्डों पर मकान बने हुए हैं ऐसे भूखण्डों का कई हिस्तों / भागों में पंजीकृत विक्रय पत्र / पंजीकृत परिवारिक सहमति या बंटवारे / पंजीकृत वसीयतनाम / भेटपत्र द्वारा विक्रय / बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसे भूखण्डों में कई ग्राम के इन एक ग्राम के हिल गारक द्वारा एवं एक से अधिक ग्रामों में सभी केता / इत्तधारियों द्वारा उप विभाजन या पुर्णगठन हेतु आदेदन किया जाता है, ऐसे प्रकरणों के निरतारण किये जाने हेतु उक्त राजस्थान शहरी क्षेत्र (उप विभाजन, पुर्णगठन एवं सुधार) नियम, 1975 में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण ऐसे प्रकरणों के निरतारण में या रही दिनांकों को देखते हुए, इन नियमों के तहत व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 171 सहायित धारा 337 के अहत निमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

- ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र / बंटवारानामा, वसीयतनामा/परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति / वक्शीशनामा द्वारा विभाजन किया है तो ऐसे पर विद्यमान भवन होने पर भी उप विभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सेटबेक में अवैध निर्माण है तो उप-विभाजन/पुर्णगठन नहीं किया जायेगा। परन्तु अग्र सेटबेक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। किसी भूखण्ड का उपविभाजन/पुर्णगठन के अनुग्रहन से

जैनलैकर में निम्ने ग्रामों की विभाजन प्रस्तावित हैं।

आशय का शास्य पत्र गी आवेदक रा। लिया जाना होगा।

भूखण्ड के उप विभाजित भाग की लम्बाई से लाख पाँच तकी होने पर उक्त भाग के लिये अनुत्तम 3.00 मी. घोड़ा एकोस हानी अवश्यक होगी जिसमें सेटवैक भी रामिलित है।

3. यदि भूखण्ड का एक से अधिक भागों में उप विभाजन प्रस्तावित है एवं उनमें से किसी हिस्से गे निर्गाण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है तो उस हिस्से का उप विभाजन नहीं किया जाये।
4. उप विभाजित भूखण्डों के लिए अग्र सेटवैक योजना क्षेत्र होने की रिथति में योजनानुसार तथा और योजना क्षेत्र होने पर आस-पास की भवन रेखा के अनुसार भवन मानवित्र समिति / साक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उप विभाजित भूखण्डों के सेटवैक्स, उंचाई, एफ.ए.आर. एवं आच्छादन मूल भूखण्ड के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे। परन्तु उप विभाजन भूखण्ड का क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर से कम होने पर भवन विनियम की तालिका में उक्त भूखण्ड के सम्बन्धित उंचाई व एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होंगे।
5. उप विभाजित / पुर्नगठित भूखण्डों में अनुज्ञेय मानदण्डों के अनुसार यदि निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है तो इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। सेटवैक का भाग अलग से विक्रय नहीं किया जायेगा एवं ना ही इसका उपविभाजन स्वीकृत किया जायेगा।
6. पंजीकृत विक्रय पत्र / पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा / वसीयतनामे के परिणामात्मक यदि मूल भूखण्ड का एक से अधिक भागों में विभाजन हो जाता है तो ऐसी रिथति में यदि उप विभाजित किसी हिस्से का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम हो एवं नियमित कच्ची बस्ती के भूखण्ड के लिए 50 वर्गगज से कम हो तो ऐसी रिथति में उस हिस्से का उप-विभाजन अस्वीकृत कर अन्य हिस्से यदि वे अन्य सभी मानदण्डों की पालना करते हो तो उनका उप विभाजन स्वीकृत किया जा सकेगा।
7. भूखण्ड के उप विभाजन हेतु आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र / पंजीकृत पारिवारिक बंटवारा / परिवार के सदस्यों की आपसी सहमति / भेट पत्र

८. तसीहतनामा हाग जितने गांगों में तथा शिवालिक विद्युत बोर्ड के दरशाते हुए गानवेत्र प्ररुत वरणा होगा।
९. पुर्णगठन: हेतु दो या अधिक भूखण्डों पर गिरने विन्दे सम्मिलित होने पर राष्ट्रीयकर्ता रूप से आवेदन करना होगा। एक ही परिवार के स्थान के विश्वास के सदस्यों की आपसी सहगति को गान्यता प्रदान की जायेगी।
१०. भूखण्डों के पुर्णगठन पर अग्र सैटबैक योजनानुसार / आस-पास की भवन रेखा के अनुसार एवं अन्य सैटबैक्स संबंधित भू-उपयोग की तालिका वे अनुसार देय होंगे। पुर्णगठन के मागलों में यदि निर्मित भवन में अग्र सैटबैक या पार्किंग के लिए रथान उपलब्ध नहीं हो तो पुर्णगठन में खाली भूखण्ड में इस प्रयोजन के लिए शर्त लगाई जा सकेगी।
११. प्रस्तावित पुर्णगठन के भूखण्डों के मध्य में कोई सरकारी भूमि अथवा रास्ता जिसका उपयोग केवल पुर्णगठन हेतु आवेदित भूखण्डधारियों द्वारा किया जा रहा हो तो यह क्षेत्रफल भी उन भूखण्डों में सम्मिलित किया जा सकेगा वशर्ते उस क्षेत्रफल के बराबर भूमि किसी योजना में आरक्षित की जा सके।
१२. भूखण्डों के पुर्णगठन पर मूल भूखण्ड पर देय एफ.ए.आर. से अधिक एफ.ए.आर. प्राप्त होने पर अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिये भवन विनियमों के प्रावधानों अथवा राज्य राजकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
१३. यदि मूल भूखण्ड के तकनीकी उप विभाजन कराने से पूर्व ही भूखण्ड को कई हिस्सों में उप विभाजन कर पंजीकृत विक्य पत्र / प्रमाणित पारियारिक बंटवारनाने / वरीयताने के जरिये गूल आदंटी द्वारा निष्पादन कर दिया हो तो ऐसी रिथति में ऐसे प्रकरणों में भूखण्ड का कानूनन हक प्राप्त व्यक्ति उप विभाजन / पुर्णगठन अनुमोदन हेतु आवेदन करने योग्य माना जावेगा।
१४. भूखण्डों के उप विभाजन / पुर्णगठन हेतु अनुमोदित किये जाने वाले भू-भाग पर निर्धारित दर से शुल्क देय होगा।
१५. भूखण्ड के मालिकाना हक के लिये निकायों द्वारा प्रदत्त आवंटन पत्र, पंजीकृत विक्य पत्र / प्रमाणिक पारियारिक बंटवारा / परिवार के

(६) प्रगाणित प्रति प्ररतुत करनी होगी ।

15. उप विभाजन / पुर्नगठन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अपर्जायकृत संटवारानामा, परियार के सदरणों की आपसी सहमति / वसीयतनामा होने की स्थिति में हितधारकों से आपत्ति / सुझाव आंगत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जावेगा । जिसका व्यय आवेदक द्वारा वहन करना होगा । विज्ञप्ति के प्रकाशन से 7 दिवस में प्रगाण लहित प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर विचार किया जा सकेगा ।
16. ऐसे मूल भूखण्ड जिनका विद्यमान उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्न विद्या जा रहा हो, तो उप विभाजन / पुर्नगठन किया जा सकेगा, परन्तु आंवटित उपयोग से भिन्न उपयोग का भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक को अलग से नियमानुसार आवेदन करके निर्धारित शुल्क देय होगा ।
17. चूंकि स्वीकृत योजनाओं में सुविधाओं आदि का प्रावधान पूर्व में ही अनुमोदित होता है । अतः स्वीकृत योजना के किसी भूखण्ड (ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त) का यदि उप विभाजन किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार की सुविधा क्षेत्र आदि का अलग से प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

उपरोक्त वर्णेत दिशा-निर्देश (Guidelines) के अनुसार ही लम्बित प्रकरणों व भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का परीक्षण किया जा कर निस्तारण किया जावें । नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.07 के अनुसार उप विभाजन हेतु आवेदित मूल भूखण्ड के 1500 वर्गगज से अधिक होने पर अथवा दो भूखण्डों पुर्नगठन के पश्चात पुनर्गठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है । इन दिशा निर्देशों में शिथिलता की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें ।

(गुरदयाल सिंह संघू)
प्रमुख शासन सचिव